

# **HIGH COURT OF CHHATTISGARH: BILASPUR**

## **ENDORSEMENT**

Endt. No. 716/Confdl./2016 Bilaspur, dated the 30/09/2016  
I-8-2/2002 (Pt. IX)

Copy of vacancy circular issued by the Director, Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion (I.P.R. - I Section), New Delhi forwarded to: -

1. The District & Sessions Judge, Balod/ Baloda-Bazar/ Bemetera/ Bastar at Jagdalpur/ Bilaspur/ Dakshin Bastar at Dantewara/ Dhamtari / Durg Janjgir-Champa / Jashpur at Jashpurnagar/ Kabirdham at Kawardha/ Kondagaon / Korba/ Koriya (Baikunthpur) / Mahasamund / Raigarh/ Raipur/ Rajnandgaon/ Surguja at Ambikapur / Surajpur/ Uttar Bastar (Kanker), with a request to display the circular on the notice board of the District Court and also to circulate the same amongst the Bar Associations of your District.
2. The Additional Registrar (A), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur with a direction to get the circular displayed on the notice boards of the High Court.
3. The President, Chhattisgarh High Court Bar Association, High Court Campus, Bilaspur for information and necessary action.
4. In-charge NIC, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur with a direction to upload the circular in the official web-site of this High Court.

  
(Arvind Singh Chandel)  
Registrar General

Encl: As above

F.No. 7/4/2016/IPR-I/IPAB/Vol- I  
GOVERNMENT OF INDIA  
Ministry of Commerce & Industry  
Department of Industrial Policy & Promotion  
(I.P.R. – I Section)

Udyog Bhavan, New Delhi-110 011,  
Dated the 7<sup>th</sup> September, 2016.

To

All Registrar Generals  
High Court  
(As per list enclosed)

AR/10/1  
Sub: Vacancy for the post of Technical Member (Trade marks) in the  
Intellectual Property Appellate Board (IPAB)-Chennai -  
Advertisement regarding


Sir,

R.Y.  
14/9/16  
The undersigned is directed to seek the assistance and co-operation  
of various Hon'ble High Courts situated in India for giving wide publicity to  
the vacancy circular for filling up of one post of Technical Member (Trade  
Marks) in IPAB, Chennai (in the Pay Band (HAG) Rs. 67000-79000). A  
Vacancy Circular has been published in Employment News dated 3<sup>rd</sup> to 9<sup>th</sup>  
September, 2016. A copy of the complete advertisement is enclosed  
herewith. The last date of receipt of application is 3<sup>rd</sup> October, 2016.

2. IPAB is a statutory authority created under the Trade Marks Act,  
1999 which hears appeals on the decisions of the Register of Trade Marks  
and Geographical Indications and Controller of Patents. IPAB was  
established in 2003 subsequent to which cases lying in the High Court were  
transferred to the IPAB under administrative control of Department of  
Industrial Policy & Promotion.

4. It is requested, that it may be given wide publicity, to ensure  
selection of a suitable candidate for the post of Technical Member (Trade  
Marks), IPAB.

Yours faithfully,

  
(Sushil K. Satpute)  
Director  
Tele No. 2306 2318

15 SEP 2016  
16850  
Encl: as above

## DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

(GOVT. OF INDIA)

Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan, New Delhi

### Recruitment of Technical Member(Trade Marks)

Applications are invited for one post of Technical Member (Trade Marks), in the Intellectual Property Appellate Board (IPAB) established at Chennai, under Section 83 of the Trade Marks Act. The post carries pay in the Pay Band (HAG) - Rs. 67,000 -79000.

2. QUALIFICATIONS: A person, shall not be qualified for appointment as a Technical Member, unless he –

(a) has, for at least ten years, exercised functions of a tribunal under the Act or under the Trade and Merchandise Marks, Act, 1958(43 of 1958), or both, and has held a post not lower than the post of a Joint Registrar for at least five years, and has 12 years of practice at bar or 12 years experience in a State Judicial Services with degree in Law;

or

(b) has, for at least ten years, been an advocate of a proven specialized experience in trade marks law."

3. The Member shall hold office as such for a term of 5 years from the date of entry upon such office or until he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

4. Eligible and willing persons may submit their applications in the proforma given in Annexure – I to the undersigned at Room No. 257 (A), Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi 110011, within **30 (Thirty Days)** from the date of advertisement in the employment news.



(Sushil K. Satpute)

Director

Tele : 23062318

E-Mail : [sushil.satpute@nic.in](mailto:sushil.satpute@nic.in)

**PARTICULARS / BIODATA FOR THE POST OF TECHNICAL MEMBER (TRADE MARKS) IN  
THE INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD.**

1. Name :
2. Father's name :
3. Date of Birth and age as on date of  
Advertisement :
4. Educational Qualifications :
5. Whether SC/ST/OBC :
6. Date of enrolment as an advocate :
7. Present Assignment :
8. Address :
  - (a) Official :
  - (b) Residential :
  - (c) E-Mail :
  - (d) Telephone No. :
  - (e) Fax No. :
  - (f) Preferred contact address from  
the above [write (a) or (b)] :
9. Background/Experience (enclose separate  
sheet ,if required) :
10. Details of special knowledge and experience  
in dealing with trade marks law ( enclose  
Separate sheet, if required) :

Separate sheet, if required)

11. Citations of the important trademark cases :

Appeared in the Supreme Court of India/  
in any of the High Courts.

(Explanation : Trade Mark cases that are referred, to show experience must be enclosed as judgments in full and not merely citations and those should be records of cases where the order has been passed on merit and not cases which are reported as settled out of court).

12. Published work, if any, on Trade  
Mark Law (enclose copy) :

Signature of the applicant :

Designation:

Office address:

(To be filled by employer, if employed)

- (i) It is certified that the information furnished by Shri/ Smt \_\_\_\_\_ has been checked as per the service records of the individual and found correct.
- (ii) It is certified that no disciplinary/vigilance case is either pending or contemplated against Shri/Smt \_\_\_\_\_.
- (iii) In the event of his/her selection Shri/Smt \_\_\_\_\_ will be relieved of his /her duties from this office.
- (iv) His/her Annual Confidential Reports (Photocopies, duly attested) for the last five years are sent herewith.

Date:

Name:

Designation:

Telephone No:

# औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

(भारत सरकार)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

## तकनीकी सदस्य (व्यापार चिह्न) की भर्ती

चेन्नई में स्थापित बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) में व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 83 के तहत तकनीकी सदस्य (व्यापार चिह्न) के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद का वेतन पे बैंड (एचएजी)- 67000-79000 रु में है।

2. अर्हताएं: तकनीकी सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित योग्यता न हो:-


(क) अधिनियम के तहत या व्यापार एवं पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 की धारा 43) अथवा दोनों के तहत कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधिकरण का कार्य किया हो, तथा संयुक्त पंजीयक या इससे ऊपर के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष तक कार्य किया हो, तथा विधि में डिग्री के साथ बार में 12 वर्ष तक अभ्यास किया हो या राज्य न्यायिक सेवा में 12 वर्ष का अनुभव हो;

अथवा

(ख) व्यापार चिह्न विधि में न्यूनतम 10 वर्ष तक का विशिष्ट अधिवक्ता का प्रमाणित अनुभव हो।

3. सदस्य इस रूप में पद का कार्यग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अथवा 62 वर्ष की आयु होने तक दोनों में जो भी पहले हो, इस पद पर रहेगा।

4. पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति अनुबंध-1 में दिये गये प्रपत्र में अपने आवेदन रोजगार समाचार में विज्ञापन की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को कमरा सं. 257(ए) उद्योग भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 पर भेज सकते हैं।

  
(सुशील के. सतपुते)

निदेशक

टेली: 23062318

ई-मेल: sushil.satpute@nic.in

बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में तकनीकी सदस्य (व्यापार चिह्न) के पद हेतु विवरण/जीवनवृत्त

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि और विज्ञापन की तारीख को आयु :
4. शैक्षिक अर्हताएं :
5. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। :
6. अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तारीख :
7. वर्तमान कार्य :
8. पता :
  - (क) कार्यालय
  - (ख) आवासीय
  - (ग) ई-मेल
  - (घ) टेलीफोन नं.
  - (ङ) फैंक्स नं.
  - (च) वरीयतः [संपर्क पता-उपर्युक्त (क) या (ख) में से लिखें]
9. पृष्ठभूमि/अनुभव (यदि आवश्यक हो तो, कृपया पृथक शीट भी संलग्न करें)
10. व्यापार चिह्न विधि से संबंधित किसी विशेष ज्ञान और अनुभव का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो, कृपया पृथक शीट भी संलग्न करें) :
11. भारत के उच्चतम न्यायालय/किसी उच्च न्यायालय में पेश हुए महत्वपूर्ण व्यापार चिह्न मामलों का हवाला :

(स्पष्टीकरण: अनुभव दर्शाने के लिए संदर्भित व्यापार चिह्न मामलों को केवल उल्लेख के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्ण निर्णयों के रूप में संलग्न किया जाना चाहिए तथा उन मामलों का रिकॉर्ड होना चाहिए जिनमें गुणों के आधार पर निर्णय दिया गया हो लेकिन वे मामले नहीं हैं जो न्यायालय से बाहर निपटाए गए हैं।)

12. व्यापार चिह्न विधि से संबंधित प्रकाशित कार्य, यदि कोई हो (प्रति संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर:

पदनाम:

कार्यालय का पता:

(यदि नियुक्त हैं तो, नियोक्ता द्वारा भरा जाना है)

- (i) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ----- द्वारा दी गई जानकारी उनके सेवा रिकार्ड के अनुसार जांच ली गई है और सही पायी गई है।
- (ii) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती----- के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनुशासनिक/सतर्कता मामला न तो लंबित है और न ही ऐसा किया जाना विचाराधीन है।
- (iii) श्री/श्रीमती----- का चयन होने पर उन्हें इस कार्यालय से उनकी इयूटी से मुक्त कर दिया जाएगा।
- (iv) उनकी विगत 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (फोटोप्रति विधिवत प्रमाणित) इसके साथ भेजी जा रही है।

दिनांक :

नाम:

पदनाम:

टेलीफोन नं.:

कार्यालय मुहर: